

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड

जनपद—

पत्रांक संख्या— 15/2025-26

दिनांक— 15/5/25

स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र।

01. आवेदक का नाम— डा० शिवानी पाण्डेय
02. पिता/पति का नाम— वैद्य कृष्ण कांत पाण्डेय
03. पदनाम— चिकित्साधिकारी
04. नियुक्ति का प्रकार— स्थायी
05. वर्तमान तैनाती का स्थान— रा० आ० चि० कठघाटिया मैनीताल
06. वर्तमान तैनाती की तिथि— 29-06-19
07. पूर्व में तैनात कार्यालयों का विवरण—

क्र० सं०	तैनाती का स्थान	तैनाती की अवधि	दुर्गम/अति दुर्गम/सुगम	टिप्पणी
1.	रा० आ० चि० कठघाटिया	13-09-13	19-6-18	दुर्गम
2.	रा० आ० चि० बानोख	20-6-18	28-6-18	दुर्गम
3.	रा० आ० चि० कठघाटिया	29-06-19	आतिथ्य	सुगम
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

08. श्रेणी जिसमें स्थानान्तरण चाहते हैं— (कोई भी एक विकल्प चुनें)

- ☒ सुगम से दुर्गम
 ☒ अनुरोध
 ☐ दुर्गम से सुगम
 ☐ स्थानान्तरण से छूट
 ☐ स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं (केवल दुर्गम में तैनात कार्मिकों हेतु)

09. स्थानान्तरण से छूट चाहने वाले कार्मिक (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) —

- ☐ वरिष्ठ कार्मिक
 ☐ दुर्गम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण
 ☐ गंभीर रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिक
 ☐ पुत्र/पुत्री की विकलांगता
 ☐ अर्धसैनिक/सैनिक में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी

10. अनुरोध उप श्रेणी (साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य) -

- | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| ○ गंभीर रोग
ग्रस्त/विकलांग | ○ मानसिक
रूप से
विक्षिप्त
बच्चों के
माता-पिता | ○ पुत्र/पुत्री
की
विकलांगता | ○ उत्तराखण्ड
सरकार में
कार्यरत
पति-पत्नी | ○ विधुर/विधवा/
तलाकशुदा/वरिष्ठ
कार्मिक |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
- दुर्गम से दुर्गम ○ सुगम से
दुर्गम

11. स्थानान्तरण के 10 विकल्प-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम	श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1	AAM कथका, देहरादून	दुर्गम
2	AAM इठारना, देहरादून	दुर्गम
3	रा० आ० चि० मिमाडी लान्ट, देहरादून	दुर्गम
4	आयुष वि० मराना, देहरादून	दुर्गम
5	होना झली (रा० आ० चि०) नैनीताल	दुर्गम
6	रा० आ० चि० देवीपुरा, नैनीताल	दुर्गम
7	AAM कासथालेत, नैनीताल	दुर्गम
8	AAM लोहाघाट, चम्पावा	दुर्गम
9	रा० आ० चि० डेस्कवान, नैनीताल	दुर्गम
10		

12. संलग्न साक्ष्यों की पृष्ठ संख्या-

(साक्ष्य संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

(नोट- ऐसे वरिष्ठ चिकित्साधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी पद का प्रभार लिये जाने के इच्छुक नहीं हैं, अनिवार्य रूप से वेबसाइट में उपलब्ध घोषणापत्र भी हस्ताक्षरित कर जमा करेंगे।)

हस्ताक्षर- 
 नाम- डा. शिवानी पांडेय
 पदनाम- चिकित्साधिकारी